

इसको प्रबल करना सिर्फ फंडिंग की कमी की वजह से क्यों की जाती है? क्या फंडिंग की कमी की वजह से सिर्फ हमारे क्षेत्र में ही डिफिकल्टी आयेगी, क्या हमारा क्षेत्र किसी भी तरह से विकसित नहीं हो सकेगा? हम चाहते हैं कि पहले बाड़मेर को ले लिया जाए फिर जैसलमेर को ले जाए। पहले ही जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया, अब कांग्रेस (भाई) की सरकार भी वहाँ कुछ काम क्यों नहीं करना चाहती है? आप हमारे विकास को क्यों प्रबल करना चाहते हैं?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जहाँ चार वाइंडर डिस्ट्रिक्ट हैं बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर तो बीकानेर में आलरेडी रेडियो स्टेशन चालू है। गंगानगर के सुरतगढ़ क्षेत्र में तुरन्त ही आकाशवाणी का केन्द्र कमीशन होने वाला है। जैसलमेर और बाड़मेर का जहाँ तक सवाल है तो इसका ईस्टर्न पार्ट जोधपुर के केन्द्र से कवर्ड हो जाता है। जहाँ तक पूरे क्षेत्र कवर्ड होने का सवाल है—

“A proposal for setting up a 50 kw shortwave transmitter at Jaipur has been included in the revised 6th plan 1980—85. This shortwave transmitter will be able to provide day and night second grade service to the whole of Rajasthan including border districts of the state. Implementation of this scheme however depends upon final approval and availability of resources.”

यह सब इम्प्लीमेंट होने के बाद मैं समझती हूँ कि माननीय सदस्य की जी मंशा है, उनकी पूर्ति हो जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : आकाशवाणी केन्द्र खोलने के क्या आधार हैं? आपने जो उत्तर दिया है, उसमें आपने यह मालूम किया है कि बाड़मेर की सीमा कितनी है। वह सीमा केरल और हरियाणा से भी अधिक है और सीमावर्ती इलाकों होने व पाकिस्तान का वाइंडर होने के कारण इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आर्थिक साधन ही नहीं और भी कारणों से आप रेडियो स्टेशन स्थापित करते हैं। उन कारणों को ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं खोलना चाहते हैं?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैंने पहले ही बताया कि जयपुर का जो 50 किलोवाट का शार्टवेव ट्रांसमीटर चालू हो जायेगा तो तमाम वाइंडर एरिया कवर हो जाते हैं। इसलिये सवाल नहीं उठना है कि बाड़मेर और जैसलमेर में ही रेडियो स्टेशन खाना जाये। क्योंकि आलरेडी जो 4 डिस्ट्रिक्ट वाइंडर स्टेट के हैं, उसमें गंगानगर जिले के सुरतगढ़ में

अभी कमीशन होने जा रहा है, बीकानेर में पहले से है। इसके प्रतिरूप—

“There is a proposal to upgrade the transmitting power of Ajmer station from the present level of 20 kw to 200 kw during the 6th plan. Actual implementation is dependent upon the availability of funds. Kota is also being considered for setting up a district level radio station.”

जब इतने हमारे प्लान इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो इस का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

Utilisation of Gypsum Discharge from Cochin Division of Fertiliser Chemicals Travancore Limited

*429. SHRI A. A. RAHIM: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) steps taken by Government to put to better use large gypsum discharged from Cochin Division of Fertiliser Chemicals Travancore Limited for manufacturing ammonium sulphate which is very much needed as a fertilizer;

(b) whether Government also propose to take steps to use the calcium carbonate by-product, arising out of the above process of making gypsum into ammonium sulphate, for producing cement; and

(c) whether any steps have been taken to set up such a plant?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) Fertilizers and Shemcals Travancore Ltd. (FACT) had submitted to Government in August 1978 a proposal for the manufacture of ammonium sulphate based on the by-product gypsum of the Phosphoric acid plant of their Cochin Phase II unit. The proposal was examined by Government but was not found acceptable on techno-economic grounds. The views of the Government have been communicated to the company, and the company has been asked to come up with viable proposals after taking into account Government's views.

(b) and (c). In view of the answer given to part (a), these do not arise.

SHRI A. A. RAHIM: In view of the heavy shortage of fertiliser and cement, is Government contemplating any step to try out unconventional methods of producing these items as mentioned in the question?

SHRI VEERENDRA PATIL: The question is about utilisation of gypsum which is being dumped now. For every tonne of fertilizer that is produced in that factory it generates five tonnes of gypsum. So a huge quantity of gypsum is dumped there. Though the question is how best we can utilise gypsum in order to produce ammonium sulphate or Cement, so far as the proposal for utilisation of gypsum which is dumped there is concerned, two proposals are under active consideration of the Company.

(1) Setting up 900 tonnes per day ammonium sulphate plant by converting the entire gypsum which is being dumped there.

(2) Setting up a plant to convert the entire gypsum into cement.

These two proposals are being considered by the Company. They have not come to the Government with a concrete proposal. When they come with concrete proposal, then the Government will consider.

SHRI B. R. NAHATA: The non-Minister said in his answer that the Government of India turned down the proposals of the company on techno-economic grounds. What were the technical defects or the economic problems? Has the Government of India considered the aspect that such a huge quantity has to be utilised some how or the other? Is there any scheme being prepared by the Government of India?

SHRI VEERENDRA PATIL: I have said, it is not for the Government to prepare a scheme. It is for the Company to prepare a scheme. It is not as if gypsum is only in Cochin Phase II

Plant. Gypsum is produced elsewhere, wherever phosphatic fertiliser is being produced. In Cochin, this is the problem because a huge quantity is being dumped there. First they came with the proposals in August 1978 and the proposals after examination in the Ministry were not found feasible. Therefore, we have asked the Company to work out an alternative and about the alternatives also as I have just now replied, alternatives are being considered by the Company and after getting their proposal we will consider that further.

1978-83 में विद्युत उत्पादन के लक्ष्य

+

* 431. श्री फूलचन्द वर्मा :

श्री के० ए० राजन :

क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978-83 की योजना के अनुसार बिजली के उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) 1978-83 को योजनानुसार सरकार सिंचाई प्रयोजनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए बिजली की सप्लाई कहाँ तक कर सकी है ;

(ग) बिजली की कटौती के परिणाम स्वरूप कृषि, सिंचाई और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उत्पादन में कितनी हानि हुई है ; और

(घ) योजना में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) A draft Five Year Plan for 1978-83 had been prepared which envisaged increase in the annual total energy generation from about 99 billion units in 1977-78 to 168 billion units during 1982-83. However, the plan is being re-cast for the period 1980-85.

(b) and (c). The energy shortage in the country during the year 1978-79 and